



भारत प्रतिमूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-1, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)



भा.प्र.मु.नि.लि./सतर्कता/76/17/3659
SPMCIL/VIG/76/17/3659

दिनांक 21.02.2024
Date: 21.02.2024

परिपत्र संख्या 01/24/Circular No. 01/24

विषय/Sub:- केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परिपत्र संख्या 02/02/24 के संदर्भ में/Central Vigilance Commission Circular No. 02/02/24 – reg.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 13.02.2024 के परिपत्र संख्या 02/02/24 को जानकारी एवं उचित कार्यवाही हेतु संलग्न पाये जिसके द्वारा आयोग ने विभागीय जांच कार्यवाही को समय पर अंतिम रूप देने एवं सतर्कता प्रशासन में सुधार के संबंध में निर्देश दिए हैं।

A copy of circular No. 02/02/24 dated 13.02.2024 issued by Central Vigilance Commission regarding timely finalization of Departmental Inquiry Proceedings – improving vigilance administration, is enclosed herewith for information and necessary action.

- इसे सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदन से जारी किया जाता है।
- This issues with the approval of Competent Authority.

संलग्न: यथोपरि।/Encl: As above.

mn
21.02.24.
(पार्थ प्रतिम दास)/(Partha Pratim Das)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

मुख्य महाप्रबंधक/The Chief General Managers,
टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill,
भा.प्र.मु.नि.लि./SPMCIL.

प्रतिलिपि/CC:

- अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक कार्यालय।/CMD office.
- निदेशक (मा.स.) कार्यालय/ निदेशक (वित्त) कार्यालय/ निदेशक (तकनीकी) कार्यालय / मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यालय / Office of Director (HR)/ Director (Finance)/ Director (Technical)/ CVO.
- मुख्य महाप्रबंधक (मा.स)/ महाप्रबंधक (तकनीकी/आई.टी.)/ CGM (HR)/GM (Tech/IT).
- सभी सतर्कता अधिकारी/All Vigilance Officials.
- सूचना पटल एवं वेबसाइट/Notice Board & Website.



सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION



सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023
000/VGL/018/19000

सं./No.....

दिनांक / Dated..... 13.02.2024

Circular No. 02/02/24

Subject:- Timely finalization of Departmental Inquiry Proceedings - improving vigilance administration.

Reference:-

(i) Commission's Circular No. 8(1)(g)/99(2)	dated 19.02.1999
(ii) Commission's Circular No. 8(1)(g)/99(3)	dated 03.03.1999
(iii) Commission's Circular No. 3(v)/99(7)	dated 06.09.1999
(iv) Commission's Circular No. 000/VGL/18	dated 23.05.2000
(v) Commission's Office Order No. 51/08/2004	dated 10.08.2004
(vi) Commission's Circular No. 02/01/2016	dated 18.01.2016
(vii) Commission's Circular No. 18/12/20	dated 14.12.2020
(viii) Commission's Circular No. 19/09/21	dated 06.10.2021
(ix) Commission's Circular No. 21/12/21	dated 03.12.2021

As part of overall superintendence over vigilance administration of organizations covered under its advisory jurisdiction, the Central Vigilance Commission has been emphasizing on timely completion of all stages of vigilance cases and disciplinary proceedings. The Commission has also issued guidelines about specific timelines to be observed for conducting departmental proceedings, so that cases can be brought to logical conclusion in a time bound manner.

2. A time limit of 6 months has been prescribed for the Inquiry Officer (IO) to complete the inquiry and submit report to the Competent Authority. However, it has been observed that in a substantial number of cases, completion of inquiry and submission of inquiry report is taking more than 6 months' period. One of the reasons contributing to such delay is due to frequent change of IO as a result of transfer, promotion, retirement etc of the earlier IO.

3. The Commission has desired that in order to ensure timely completion of departmental inquiry, the same IO should continue to conduct inquiry, even after his transfer or promotion, till the inquiry report is submitted by him. In case of transfer of

IO to a new station, either his transfer orders may be given effect after submission of Inquiry Report or digital mode / video conferencing may be used for conducting / continuing with the departmental inquiry. It may be noted that DoPT, vide their OM No. 142/40/2015-AVD.I dated 15.09.2017 & OM No. 11012/03/2020-Estt.A-III dated 05.08.2020 have issued guidelines for maximizing the use of Video Conference facility for conducting departmental inquiry. However, in case of unavoidable circumstances, the IO may be allowed to visit earlier station for conducting ongoing inquiry / inquiries.

4. Further, it may also be ensured that a person who is due to retire shortly (may be within a period of one year), is not appointed as IO. In case the departmental inquiry gets delayed due to any reason and the IO retires before submission of inquiry report, he may be considered for continuing as IO even after his retirement, subject to his willingness and other conditions applicable to appointment of retired officials as IOs. It may be kept in view that DoPT, vide their OM No. 142/40/2015-AVD.I dated 15.09.2017 and OM No. 1668597747466 dated 16.11.2022 have issued guidelines for appointment of a retired person as IO and for payment of honorarium to such IOs.

5. The above guidelines may be noted for compliance with immediate effect.



(Rajiv Verma)
Director

To

- (i) The Secretaries of all Ministries/Departments of GoI
- (ii) All Chief Executives of CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Autonomous Bodies etc.
- (iii) All CVOs of Ministries/Departments of GoI/CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Autonomous Bodies etc.
- (iv) Website of CVC